



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2018/माघ 3, 1939

No. 35]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2018/MAGHA 3, 1939

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

संशोधन अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2018

सं. भा.आ.प.-34(41)/2017-मेड./169886.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् "प्रति वर्ष 250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" को पुनः संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "प्रति वर्ष 250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2017" कहा जाएगा।  
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "प्रति वर्ष 250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/आशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार किए जाएंगे:—
3. "प्रति वर्ष 250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" के प्रथम पृष्ठ पर पॉइंट संख्या 3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"प्रति वर्ष एमबीबीएस में 250 दाखिलों के लिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और आयुर्विज्ञान संस्थान के पास निम्नलिखित विभाग होंगे, नामतः—

- (1) मानव शरीर—विज्ञान
- (2) मानव शरीर—क्रियाविज्ञान
- (3) जीवनरसायन
- (4) रोग—विज्ञान (रक्त बैंक सहित)
- (5) सूक्ष्मजीव—विज्ञान
- (6) भेषज—विज्ञान
- (7) फॉरेंसिक मेडिसिन (विष—विज्ञान सहित)
- (8) कम्युनिटी मेडिसिन

- (9) मेडिसिन
- (10) बालरोग—विज्ञान
- (11) मनश्चिकित्सा
- (12) त्वचा—विज्ञान, रतिज रोग—विज्ञान एवं कुष्ठ रोग
- (13) तपेदिक एवं श्वसनी रोग
- (14) शल्य—चिकित्सा
- (15) विकलांग—विज्ञान
- (16) विकिरण—विज्ञान
- (17) विकिरण चिकित्सा (वैकल्पिक)
- (18) कान नाक गला रोग—विज्ञान
- (19) नेत्र—विज्ञान
- (20) प्रसूति एवं स्त्री रोग—विज्ञान
- (21) संचेतनाहरण—विज्ञान
- (22) भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास (वैकल्पिक)
- (23) दंत चिकित्सा—विज्ञान

4. "ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र" शीर्षक के अंतर्गत खंड क.1.19 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

"प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज के स्वामित्व वाला होना चाहिए या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटरनों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। यह स्वास्थ्य केंद्र 30 कि.मी. की दूरी के अंदर होगा, सिवाय यथा संशोधित 'मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली 1999' में विनिर्दिष्ट शहरी समूह के श्रेणी 'क' शहरों में, जहां यह 50 कि.मी. के अंदर होना चाहिए। भोजनालय की सुविधाओं के साथ छात्रों, छात्राओं और इंटरनों के लिए अलग आवासीय व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वार्षिक प्रवेश के 10 प्रतिशत के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।"

5. खंड क.1.19 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

**"क.1.20** महिला छात्रों/कार्यरत कार्मिकों और मरीजों के बच्चों और शिशुओं की देखभाल करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाला, मेडिकल कॉलेज में एक दिवा देखभाल केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए।"

6. खंड क.2.1 में "शरीरचर्या—विज्ञान विभाग" शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 'छ' के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

**"ज.** ऊतक—विज्ञान छात्रों के लिए सूक्ष्मदर्शी भंडारण और विद्युती पॉइंटों हेतु पानी की टोंटियों, हौदियों, कपबोर्डों के साथ फिट की गई कार्य की बेंचों के लिए स्थान वाली ऊतक प्रयोगशाला (375 वर्ग मीटर) होगी। तकनीशियनों के लिए और उपकरणों के भंडारण के लिए एक तैयारी कक्ष (18 वर्ग मीटर) होगा।"

7. खंड क.2.3 में, "जीवनरसायन विभाग" शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 'घ' के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

**"ङ.** प्रयोगशाला कक्षा — शेल्फों और कपबोर्डों, पानी की टोंटियों, हौदियों, बिजली और पानी के कनेक्शनों के साथ फिट की गई बेंचों वाली एक प्रयोगशाला (375 वर्ग मीटर) होगी ताकि छात्रों को स्थान दिया जा सके। तकनीशियनों, भंडारों, तैयारी कक्ष, तोलन और आसवन उपकरणों के लिए दो-दो बाहरी कमरे (14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) भी उपलब्ध कराए जाएंगे।"

8. खंड क.2.4 में "रोग—विज्ञान विभाग" शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 'छ' के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

**"(ज)** अभ्यास करने हेतु छात्रों के लिए शेल्फों, कपबोर्डों, अल्मारियों, हौदियों, पानी की टोंटियों, सूक्ष्मदर्शी तथा बर्नरों के लिए लाइट के साथ फिट की गई बेंचों वाले तैयारी कक्ष (14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल), रुग्ण शरीरचर्या—विज्ञान और ऊतक रोग—विज्ञान/कोशिका रोग—विज्ञान (375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) के लिए और नैदानिक रोग—विज्ञान/रुधिर—विज्ञान (375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) के लिए प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं होंगी।"

(झ) ऊतक रोग—विज्ञान, कोशिका रोग—विज्ञान, रुधिर विज्ञान और अस्पताल में विशेषज्ञता वाले अन्य कार्य के लिए उपयुक्त ढंग से साज—सामान से लैस एक अलग सेवा प्रयोगशाला (40 वर्ग मीटर) होगी।”

9. खंड क.2.5 में “सूक्ष्म जीव—विज्ञान विभाग” शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या ‘ड’ के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

(छ) प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं : छात्रों और तैयारी कक्ष (14 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) के लिए शेल्फों, कपबोर्डों, हौदियों, पानी की टोंटियों, सूक्ष्मदर्शी तथा बर्नरों के लिए लाइट के साथ फिट की गई बेंचों वाली एक प्रयोगशाला (375 वर्ग मीटर क्षेत्रफल) होगी।

(ज) (1) एनेरोबिक सहित जीवाणु—विज्ञान (2) सीरम—विज्ञान (3) रतिज रोग—विज्ञान (4) पराश्रियक—विज्ञान (5) कवक—विज्ञान (6) तपेदिक, और (7) प्रतिरक्षण—विज्ञान के लिए एक—एक अलग सेवा प्रयोगशाला (40 वर्ग मीटर) होगी।

संदूषित संवर्धन प्लेटों, परीक्षण ट्यूबों और शीशे के सामान के लिए (1) मीडिया तैयारी और भंडारण (20 वर्ग मीटर) (2) आटोक्लेविंग (12 वर्ग मीटर) (3) नियमित और निरंतर जलापूर्ति के साथ धुलाई एवं सुखाई कक्ष (12 वर्ग मीटर) हेतु अलग स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।”

10. “प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र” शीर्षक के अंतर्गत खंड क.2(8)(छ) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र:

प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज के स्वामित्व वाला होना चाहिए या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटर्नों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। यह स्वास्थ्य केंद्र 30 कि.मी. की दूरी के अंदर होगा, सिवाय यथा संशोधित ‘मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली 1999’ में विनिर्दिष्ट शहरी समूह के श्रेणी ‘क’ शहरों में, जहां यह 50 कि.मी. के अंदर होना चाहिए। भोजनालय की सुविधाओं के साथ छात्रों, छात्राओं और इंटर्नों के लिए अलग आवासीय व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वार्षिक प्रवेश के 10 प्रतिशत के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।”

11. “शहरी प्रशिक्षण स्वास्थ्य केंद्र” शीर्षक के अंतर्गत खंड क.2(8)(ज) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज के स्वामित्व वाला होना चाहिए या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटर्नों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।”

12. खंड क.2.8 में “कम्युनिटी मेडिसिन विभाग” शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या ‘ज’ के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

“झ. प्रयोगशाला के विभिन्न प्रयोगात्मक कार्यों के प्रदर्शन के उद्देश्य के लिए सुविधाओं वाली एक प्रयोगशाला (375 वर्ग मीटर) होगी।”

13. खंड ख में “ख.1 सामान्य अभ्युक्ति” शीर्षक के अंतर्गत अध्यापन अस्पताल, खंड 1.1 का पहला पैरा निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“केंद्र सरकार को आवेदनपत्र के प्रस्तुत करने के समय पर न्यूनतम 75 प्रतिशत अंतरंग बिस्तर आक्युपेंसी और कम से कम 3000 प्रति दिन की संख्या वाला बहिरंग रोगी विभाग और एकात्मक अस्पताल, कम से कम 10 वर्ष की अवधि वाला और जिसे पास बहिरंग रोगी विभाग, अंतरंग वाडों, ओटी, आईसीयू, आकस्मिकता, प्रसूति कक्ष, प्रयोगशालाओं, रक्त बैंक, सीएसएसडी, रसोईघर आदि जैसी सभी आवश्यक संरचना हों, 1100 बिस्तरों वाला एक पूर्णतः कार्यात्मक अस्पताल उपलब्ध होगा।”

14. खंड ख.1.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“अनुमति पत्र के चरण से कम से कम 3000 प्रति दिन की न्यूनतम उपस्थिति होगी।”

15. खंड ख.1.8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“बिस्तरों की अंतरंग आक्युपेंसी — अंतरंग बिस्तरों में औसत आक्युपेंसी, न्यूनतम 75 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।”

16. खंड ख.2 में “नैदानिक विभाग” के शीर्षक के अंतर्गत और “अतिरिक्त आवास” के संबंध में ख.2.2 के उप-शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 3 “नैदानिक प्रदर्शन कक्ष (प्रत्येक विभाग के लिए कम से कम एक)” का विलोप किया जाएगा।

17. खंड ख.2 में, "नैदानिक विभाग" के शीर्षक के अंतर्गत और "शल्यक्रिया-शाला इकाई" के संबंध में खंड ख.2.3 के उप-शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 2 और 4 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—  
 "2. शल्यक्रिया-पूर्व बिस्तरे — 1 बिस्तर/शल्यक्रिया-शाला इकाई"  
 4. शल्यक्रिया पश्चात बिस्तरे — 2 बिस्तरे/शल्यक्रिया-शाला इकाई"
18. खंड ख.2.7 में, "संचेतनाहर-विज्ञान विभाग" शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 3 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—  
 "3. नैदानिक प्रदर्शन कक्ष : एक"
19. खंड ख.3 में "नैदानिक विभाग" शीर्षक के अंतर्गत और "आवास" के संबंध में ख.3.1 के उप-शीर्षक के अंतर्गत पॉइंट संख्या 3 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:—  
 "3. जनरल मेडिसिन, बालरोग, जनरल सर्जरी, अस्थि विकलांग-विज्ञान और प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान विभागों के लिए उचित ढंग से साज-सामान के साथ चार परीक्षा कक्ष और बाकी विभागों के लिए उचित ढंग से साज-सामान के साथ दो परीक्षा कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक विभाग में 15-20 छात्रों की क्षमता का एक प्रदर्शन कक्ष भी होगा।"
20. खंड ख.5 में, "केंद्रीय आकस्मिकता विभाग" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—  
 "ऑक्सीजन की आपूर्ति, वेंटिलेटर्स, डिब्रेफ्रीलेटर सहित पुनरुज्जीवन सेवाओं के लिए स्थान और साज-सामान से पूर्णतः लैस दो आपदा ट्रेलियां (आपातकालिक ट्रेलियां), आपातकालिक एक्स-रे, जांच सुविधाएं, शल्यक्रिया-शाला आदि उपलब्ध कराई जाएंगी। वे साज-सामान से पूर्णतः लैस होंगी।  
 मरीजों, उनके परिचारकों तथा विभाग के स्टाफ के लिए पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्थाएं (शौचालय और स्नानागार) और पेय जल सुविधाएं संबंधित ब्लॉकों में उपलब्ध कराई जाएंगी।"
21. खंड ख.6 में, "केंद्रीय अस्पताल फार्मसी" शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:—

#### **1. स्थान संबंधी शर्त**

##### **औषधालय:**

3000 वर्ग फुट (इसमें वाडों और बहिरंग रोगी विभागों, मरीजों को परामर्श कक्ष, माल-सूची, स्टाफ और सभी भंडारों में उपलब्ध सेवा प्रदान करने के सभी क्षेत्र शामिल होने चाहिए।

##### **औषध और विष सूचना सेवाएं:**

वे, एमबीबीएस पाठ्यर्चा के एक भाग के रूप में भेषज-विज्ञान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इन्हें इसी प्रकार जारी रखा जाना चाहिए।

#### **2. स्टाफ संबंधी शर्त:**

प्रति वर्ष 250 दाखिलों के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए न्यूनतम मानक शर्तों की मौजूदा विनियमावली, 1999 के अनुसार पॉइंट संख्या ख.6 "केंद्रीय अस्पताल फार्मसी" के अंतर्गत — केंद्रीय अस्पताल फार्मसी या प्रभारी एक अर्हताप्राप्त भेषज-विज्ञानी होना चाहिए। उसे वरीयतः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भेषजी स्नातक/किसी मान्यताप्राप्त निकाय से डी. फार्मा होना चाहिए। वह केंद्रीय अस्पताल फार्मसी का प्रधान हो सकता/सकती है और उसे चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करना चाहिए।

औषध प्रदान करने के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित अन्य स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए।

#### **3. अवसंरचनात्मक शर्तें (आवश्यकता के अनुसार संख्या भिन्न हो सकती है)**

रेफ्रिजरेटर	:	03
मेजें	:	10
कुर्सियां	:	15
वितरण मेजें (2X8 फुट)	:	05
कंप्यूटर(आवश्यकता पर निर्भर करते हुए)	:	05
कंप्यूटर कुर्सी	:	05
फाइल कैबिनेट	:	02
पाठ्यपुस्तकों के रैक	:	02
कंप्यूटर मेजें	:	05

टेलीफोन सुविधाएं

प्रिंटिंग सुविधाएं

इंटरनेट सुविधाएं (उच्च गति)

उपर्युक्त संख्याएं न्यूनतम शर्त है। तथापि, अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है।

4. औषध सूचना औषध-कोश/राष्ट्रीय फार्मूलरीज और महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तकों एवं पत्रिकाओं के लिए आवश्यक संसाधन, प्रोफेसर एवं विभाग प्रमुख, भेषज-विज्ञान की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध होने चाहिए।"

22. खंड ख.9 में "स्टाफ क्वार्टर्स" शीर्षक के अंतर्गत ख.9.1 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"वरिष्ठ रेजिडेंटों और कनिष्ठ रेजिडेंटों के 100 प्रतिशत के लिए आवास होगा। सभी वरिष्ठ रेजिडेंटों और कनिष्ठ रेजिडेंटों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे उस परिसर, जहां अस्पताल स्थित है, में रेजिडेंट के होस्टल/क्वार्टरों में रहें।"

23. "छात्रों के लिए छात्रावास" शीर्षक के अंतर्गत खंड ख.11 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"कॉलेज/संस्था में, एक दिए गए समय पर छात्रों के कुल प्रवेश के कम से कम 60 प्रतिशत के लिए छात्रों के छात्रावास की व्यवस्था होगी। छात्रावास के प्रत्येक कमरे में तीन से अधिक अधिभोक्ता नहीं होंगे। कमरे का आकार 9 वर्ग मीटर/छात्र होगा। प्रत्येक छात्र को स्वतंत्र और अलग फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कुर्सी, मेज, पलंग और पूरे आकार का कप बोर्ड शामिल होगा। प्रत्येक छात्रावास में कंप्यूटर और इंटरनेट सहित एक अध्ययन कक्ष और आगंतुक कक्ष होगा। ये दोनों कमरे वातानुकूलित होंगे। एक मनोरंजन कक्ष होगा, जिसमें टीवी, संगीत, अंतरंग खेल और भोजनालय की सुविधाएं होंगी।

24. खंड ख.11 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:-

"ख.12 कॉलेज/संस्था में, मान्यता के मूल्यांकन के समय पर छात्रों के कुल प्रवेश के कम से कम 50 प्रतिशत के लिए इंटरन के होस्टल की व्यवस्था होगी। होस्टल के प्रत्येक कमरे में तीनों से अधिक अधिभोक्ता नहीं होंगे। कमरे का आकार 9 वर्ग मीटर/इंटरन होगा। प्रत्येक इंटरन को स्वतंत्र और अलग फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कुर्सी, मेज, पलंग और पूरे आकार का कपबोर्ड शामिल होगा। प्रत्येक होस्टल में कंप्यूटर और इंटरनेट सहित एक अध्ययन कक्ष और आगंतुक कक्ष होगा। ये दोनों कमरे वातानुकूलित होंगे। एक मनोरंजन कक्ष होगा, जिसमें टीवी, संगीत, अंतरंग खेल और भोजनालय की सुविधाएं होंगी।"

25. अनुसूची II में "स्टाफ संबंधी शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत "सामान्य अभ्युक्ति" शीर्षक के अंतर्गत खंड 'क' में पॉइंट संख्या 5 की अंतिम चार पंक्तियां निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएंगी:-

"कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सांख्यिकीविद व ट्यूटर के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एससी की शैक्षिक योग्यता होगी। ये शर्तें, अध्यापक पात्रता शैक्षिक योग्यता विनियमावली के अनुसार हैं।"

26. अनुसूची II में "स्टाफ संबंधी शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत, "औचित्य" में "सहायक सेवाओं के लिए स्टाफ संबंधी शर्तें" शीर्षक के अंतर्गत खंड 'घ' में पॉइंट संख्या 1 और 2 का विलोप किया जाएगा। ?

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/409/17]

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमावली, नामतः "प्रति वर्ष 250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35(1)/1998-मेडि.(ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड (4) में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 01 दिसंबर, 2008, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010, 30 जनवरी, 2010, 26 फरवरी, 2010, 17 सितंबर, 2010, 03 नवंबर, 2010, 18 मार्च, 2014, 01 जुलाई 2015, 27 जनवरी, 2017 और 23 अगस्त, 2017 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

केवल 250 दाखिलों (एमबीबीएस-स्नातक-पूर्व) के लिए शर्तें

क्रम सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
1	व्याख्यान थियेटर (कॉलेज का भवन)	क) संख्या	4	4	4	4	4
		ख) क्षमता	300	300	300	300	300
		ग) प्रकार	गैलरी	गैलरी	गैलरी	गैलरी	गैलरी
	अस्पताल का भवन	क) संख्या	1	1	1	1	1
		ख) क्षमता	300	300	300	300	300

		ग) प्रकार	गैलरी	गैलरी	गैलरी	गैलरी	गैलरी	गैलरी
2	परीक्षा हाल	(क्षमता)	250	250	250	250	250	250
		संख्या	3	3	3	3	3	3
3	केंद्रीय पुस्तकालय (वातानुकूलित)	क) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	4000	4000	4000	4000	4000	4000
		ख) बैठने की क्षमता (अंदर+बाहर)	500 (250+250)	500 (250+250)	500 (250+250)	500 (250+250)	500 (250+250)	500 (250+250)
		ग) पुस्तकें	20000	20000	20000	20000	20000	20000
		घ) पत्रिकाएं (भारतीय + विदेशी)	100 (67+33)	100 (67+33)	100 (67+33)	100 (67+33)	100 (67+33)	100 (67+33)
4	छात्रावास	क) छात्र और छात्राओं की क्षमता, कुल प्रवेश के 60 प्रतिशत की दर से	60%	60%	60%	60%	60%	60%
		ख) स्नातकोत्तर सहित रेजिडेंटों की क्षमता, 100 प्रतिशत की दर से	128+ अतिरिक्त स्नातकोत्तर छात्र और छात्राओं के लिए अतिरिक्त आवास	128+ अतिरिक्त स्नातकोत्तर छात्र और छात्राओं के लिए अतिरिक्त आवास	128+ अतिरिक्त स्नातकोत्तर छात्र और छात्राओं के लिए अतिरिक्त आवास	128+ अतिरिक्त स्नातकोत्तर छात्र और छात्राओं के लिए अतिरिक्त आवास	128+ अतिरिक्त स्नातकोत्तर छात्र और छात्राओं के लिए अतिरिक्त आवास	128+ अतिरिक्त स्नातकोत्तर छात्र और छात्राओं के लिए अतिरिक्त आवास
	छात्रावास/क्वार्टर	ग) इंटर्नो का होस्टल, 50 प्रतिशत की दर से	50%	50%	50%	50%	50%	50%
		घ) नर्सों का आवास, 20 प्रतिशत की दर से	110	110	110	110	110	110
5	आवासीय क्वार्टर	क) अध्यापन, 20 प्रतिशत की दर से	38	38	38	38	38	38
		ख) गैर-अध्यापन, 20 प्रतिशत की दर से	38	38	38	38	38	38
	बिस्तरों का वितरण							
6	मेडिसिन एवं संबद्ध	क) जनरल मेडिसिन	240/8	240/8	240/8	240/8	240/8	240/8
		ख) बाल रोग	120/4	120/4	120/4	120/4	120/4	120/4
		ग) तपेदिक एवं वक्ष	50/2	50/2	50/2	50/2	50/2	50/2
		घ) त्वचा एवं रतिज रोग	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
		ङ) मनश्चिकित्सा	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
		जोड़	470/16	470/16	470/16	470/16	470/16	470/16
7	शल्यचिकित्सा एवं संबद्ध	क) जनरल शल्यचिकित्सा	240/8	240/8	240/8	240/8	240/8	240/8
		ख) अस्थि विकलांग	150/5	150/5	150/5	150/5	150/5	150/5
		ग) नेत्ररोग—विज्ञान	60/2	60/2	60/2	60/2	60/2	60/2
		घ) कान—नाक—गला	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
		जोड़	480/16	480/16	480/16	480/16	480/16	480/16
8	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	क) प्रसूति एवं एएनसी	70	70	70	70	70	70
		ख) स्त्रीरोग—विज्ञान	60	60	60	60	60	60
		ग) प्रसवोत्तर	20	20	20	20	20	20
		जोड़	150/5	150/5	150/5	150/5	150/5	150/5
		सकल जोड़	1100/37	1100/37	1100/37	1100/37	1100/37	1100/37
9	बहिरंगरोगी विभाग		3000	3000	3000	3000	3000	3000
10	बस्तरें : (एकात्मक अस्पताल जो 10 वर्ष से कम का न हो।)	बिस्तरों की आवक्युपेसी का प्रतिशत	आरम्भ से - 75%	आरम्भ से - 75%	आरम्भ से - 75%	आरम्भ से - 75%	आरम्भ से - 75%	आरम्भ से - 75%
		बिस्तरों की संख्या	1100	1100	1100	1100	1100	1100
		आईपीडी	825	825	825	825	825	825
11	ओटी एवं	क) बड़ा ओटी	11	11	11	11	11	11

	आईसीयू	ख) लघु ओटी	2	2	2	2	2	2
		ग) आईसीसीयू	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे
		आईसीयू	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे
		पीआईसीयू/	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे
		एनआईसीयू	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे
		एसआईसीयू	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे	5 बिस्तरे
		घ) आकस्मिकता बिस्तरे	30	30	30	30	30	30
12	रेडियोलोजी	क) स्टैटिक इकाई	2	2	2	2	2	2
		- 300 mA	2	2	2	2	2	2
		- 600 mA	2 IITV +	2 IITV +	2 IITV +	2 IITV +	2 IITV +	2 IITV +
		- 800 mA	पलूरोस्कॉपी	पलूरोस्कॉपी	पलूरोस्कॉपी	पलूरोस्कॉपी	पलूरोस्कॉपी	पलूरोस्कॉपी
		+ पलूरोस्कॉपी						
		ख) सचल इकाई	3	3	3	3	3	3
		- 60 mA	3	3	3	3	3	3
		- 100 mA						
		ग) यूएसजी (रंगीन)	3	3	3	3	3	3
		घ) सीटी स्कैन -						
		(न्यूनतम - 16	1	1	1	1	1	1
		स्लाइस -						
		स्पाइरल)						
		ङ) एमआरआई (1.	1	1	1	1	1	1
		5 टेस्ला)						
13	पैरा-मेडिकल व गैर-अध्यापन स्टाफ		188	188	188	188	188	188
14	नर्सिंग स्टाफ	क) नर्सिंग अधीक्षक	1	1	1	1	1	1
		ख) नर्सिंग उप-अधीक्षक	8	8	8	8	8	8
		ग) सहायक नर्सिंग उप-अधीक्षक	18	18	18	18	18	18
		घ) नर्सिंग सिस्टर	75	75	75	75	75	75
		ङ) स्टाफ नर्स	450	450	450	450	450	450
		जोड़	552	552	552	552	552	552
15	प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं		6 (300वर्ग मीटर)	6 (300वर्ग मीटर)	6 (300वर्ग मीटर)	6 (300वर्ग मीटर)	6 (300वर्ग मीटर)	6 (300वर्ग मीटर)
	केंद्रीय प्रयोगशाला (अस्पताल)		2 (120 वर्ग मीटर)	2 (120 वर्ग मीटर)	2 (120 वर्ग मीटर)	2 (120 वर्ग मीटर)	2 (120 वर्ग मीटर)	2 (120 वर्ग मीटर)
	रक्त बैंक		1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक	1 उपलब्ध और कार्यात्मक
16	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज के स्वामित्व वाला होना चाहिए या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटरनों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। यह स्वास्थ्य केंद्र 30 कि.मी. की दूरी के अंदर होगा, सिवाय यथा संशोधित 'मेडिकल कॉलेज की स्थापना विनियमावली 1999' में विनिर्दिष्ट शहरी समूह के श्रेणी 'क' शहरों में, जहां यह 50 कि.मी. के अंदर होना चाहिए। भोजनालय की सुविधाओं के साथ छात्रों, छात्राओं और इंटरनों के लिए अलग आवासीय व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वार्षिक प्रवेश के 10 प्रतिशत के लिए छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।"						
17	शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	"प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इससे संबद्ध एक शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। यह ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, कॉलेज के स्वामित्व वाला होना चाहिए या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। अकादमिक नियंत्रण, इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा और समुदाय उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा में छात्रों और इंटरनों के प्रशिक्षण के कॉलेज के डीन के पास होगा। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।"						
18	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला/सेल	सभी अवसररचना और स्टाफ के साथ पहले बैच से एक केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला/सेल उपलब्ध होगा।						

## केवल 250 दाखिलों (एमबीबीएस - स्नातक-पूर्व) के लिए स्टाफ की संख्या

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवा बैच)	मान्यता
शरीररचना-विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4

	ट्यूटर	5	5	5	5	5	5
शरीरक्रिया-विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर	5	5	5	5	5	5
जीवरसायन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर	5	5	5	5	5	5
भेषज-विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	ट्यूटर	4	4	4	4	4	4
रोग-विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर	6	6	6	6	6	6
सूक्ष्मजीव-विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर	5	5	5	5	5	5
फोरेन्सिक मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर	4	4	4	4	4	4
कम्युनिटी मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	मरक-विज्ञानविद व सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सांख्यिकीविद व ट्यूटर	1	1	1	1	1	1
	ट्यूटर	5	5	5	5	5	5
जनरल मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	7	7	7	7	7	7
	सहायक प्रोफेसर	8	8	8	8	8	8
	वरिष्ठ रेजिडेंट	8	8	8	8	8	8
	कनिष्ठ रेजिडेंट	16	16	16	16	16	16
बाल रोग	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	वरिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
	कनिष्ठ रेजिडेंट	8	8	8	8	8	8
तपेदिक एवं श्वसन रोग	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	2	2	2
	कनिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
त्वचारोग-विज्ञान, रतिजरोग-विज्ञान एवं कुष्ठ रोग	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
	कनिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	2	2	2



मनश्चिकित्सा	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
	कनिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	2	2	2
जनरल सर्जरी	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	7	7	7	7	7	7
	सहायक प्रोफेसर	8	8	8	8	8	8
	वरिष्ठ रेजिडेंट	8	8	8	8	8	8
	कनिष्ठ रेजिडेंट	16	16	16	16	16	16
अस्थि विकलांग	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	वरिष्ठ रेजिडेंट	5	5	5	5	5	5
	कनिष्ठ रेजिडेंट	10	10	10	10	10	10
कान-नाक-गला विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
	कनिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	2	2	2
नेत्ररोग-विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	2	2	2
	कनिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	वरिष्ठ रेजिडेंट	5	5	5	5	5	5
	कनिष्ठ रेजिडेंट	10	10	10	10	10	10
संचेतनाहर-विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	6	6	6	6	6	6
	वरिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
	कनिष्ठ रेजिडेंट	7	7	7	7	7	7
विकिरण निदान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजिडेंट	3	3	3	3	3	3
दंत्य चिकित्सा	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	कनिष्ठ रेजिडेंट	3	3	3	3	3	3

**टिप्पणियां****कमी का हिसाब लगाने के उद्देश्य के लिए**

(1) अध्यापन संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी को अलग-अलग गिना जाएगा।

**(क) अध्यापन संकाय के लिए**

(क) संकाय की कमी का परिकलन करने के लिए संबंधित विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ट्यूटर को एकसाथ गिना जाएगा।

(ख) उच्चतर काडर में कोई अधिक अध्यापन संकाय केवल उसी विभाग के निम्नतर काडर की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।

(ग) किसी विभाग में निम्नतर काडर/श्रेणी का कोई अधिक अध्यापन संकाय किसी विभाग या किसी अन्य विभाग के उच्चतर काडर/श्रेणी में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की कमी की

प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती। (घ) किसी विभाग का अधिक/ अतिरिक्त अध्यापन संकाय किसी अन्य विभाग में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
<b>(ख) रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए</b>
(क) वरिष्ठ रेजिडेंट की अधिकता केवल उसी विभाग के कनिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति कर सकती है। (ख) किसी विभाग के अधिक वरिष्ठ रेजिडेंट/ कनिष्ठ रेजिडेंट किसी अन्य विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट/ कनिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता। (ग) कनिष्ठ रेजिडेंट की कोई अधिकता उसी या किसी अन्य विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती। (घ) उसी या किसी अन्य विभाग का कोई अधिक/ अतिरिक्त अध्यापन संकाय वरिष्ठ रेजिडेंट/ कनिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकते अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता वरिष्ठ रेजिडेंट या कनिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
(2) दंत्य चिकित्सा/ दंत्य संकाय के किसी अलग विभाग की आवश्यकता नहीं है, जहां उसी परिसर/ शहर में कोई दंत्य कॉलेज उपलब्ध है और इसे उसी प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है।
(3) स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए स्नातकोत्तर विनियमावली, 2000 के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ, बिस्तरे और अन्य शर्तें आवश्यक हैं।

पदनाम	मान्यता
कुल संकाय	192
कुल रेजिडेंट	128

### MEDICAL COUNCIL OF INDIA

### AMENDMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2018

**No. MCI-34(41)/2017-Med./169886.**—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to further amend the “Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, namely: -

- (i) These Regulations may be called the “Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 2017”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- In the “Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, the following additions/modifications/ deletions/substitutions, shall be, as indicated therein: -
- In the first page of “Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999”, point no. 3 shall be substituted as under:-

“Every medical college and Medical Institution for 250 M.B.B.S. admissions annually shall have the following departments, namely:-

- HUMAN ANATOMY
- HUMAN PHYSIOLOGY
- BIOCHEMISTRY
- PATHOLOGY (INCLUDING BLOOD BANK)
- MICROBIOLOGY
- PHARMACOLOGY
- FORENSIC MEDICINE INCLUDING TOXICOLOGY
- COMMUNITY MEDICINE
- MEDICINE
- PAEDIATRICS
- PSYCHIATRY
- DERMATOLOGY, VENEREALOGY AND LEPROSY
- TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES
- SURGERY

15. ORTHOPAEDICS
16. RADIO-DIAGNOSIS
17. RADIOTHERAPY (OPTIONAL)
18. OTO-RHINOLARYNGOLOGY
19. OPHTHALMOLOGY
20. OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
21. ANAESTHESIOLOGY
22. PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION(OPTIONAL)
23. DENTISTRY

4. Clause A.1.19 under the heading “Rural Health Training Centre”, shall be substituted as under:-

*Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it. This Rural Health Training Center shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Center. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. This Health Center shall be within a distance of 30 kms. except in Urban agglomeration Class A cities specified in Establishment of Medical College Regulations, 1999 as amended where it should be within 50 kms. Separate residential arrangements for boys, girls and interns with mess facilities shall also be provided Hostel accommodation shall be provided for 10 % of annual intake. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.*

5. After Clause A.1.19, the following shall be added as under:-

**A.1.20** *A Day Care Center should be established in the medical college with adequate facilities for taking care of the infants and the children of female students/working personnel and patients.*

6. In Clause A.2.1, under the heading “Anatomy Department”, after point no. G, the following shall be added as under:-

**H.** *Histology- There shall be Histology Laboratory (375sq.mt.) with accommodation for work benches fitted with water taps, sinks, cupboards for microscope storage and electric points for the students. There shall be a preparation room (18 sq. mt.) for technicians and storage of equipment.*

7. In Clause A.2.3, under the heading “Biochemistry Department”, after point no. D, the following shall be added as under:-

**E.** *Practical class room- There shall be a laboratory (375 Sq.m.) with benches fitted with shelves and cupboards, water taps, sinks, electric and gas connections so as to accommodate the students. Two Ante rooms (14 Sq.m. area) each for technicians, stores, preparation room, balance and distillation apparatus shall also be provided.*

8. In Clause A.2.4, under the heading “Pathology Department”, after point no. G, the following shall be added as under:-

**(H)** *There shall be Practical Laboratories for Morbid Anatomy and Histopathology/Cytopathology (375 Sq.mt. area) and for clinical Pathology/Haematology (375 sq.mt.area) with preparation room (14 sq.mt.area) with benches, fitted with shelves cupboards, sinks, water taps, light for microscopy and burners for the students to carry out exercises.*

**(I)** *There shall be a separate service laboratory each (40 Sq.mt.) for histopatholgy, cytopathology, Haematology and other specialised work in the hospital suitably equipped.*

9. In Clause A.2.5, under the heading “Microbiology Department”, after point no. E, the following shall be added as under:-

**(G)** *Practical laboratories: There shall be a Practical Laboratory( 375 sq. m..area) with benches, fitted with shelves cupboards, sinks, water taps, light for microscopy and burners for the students and preparation room(14 sq. m.area) .*

**(H)** *There shall be a separate service laboratory each (40 Sq.mt.) for (1)Bacteriology including Anerobic, (2) Serology (3) Virology (4) Parasitology (5) Mycology (6) Tuberculosis and (7) Immunology .*

*Separate accommodation for (1) Media Preparation and storage (20 sq.m.) (2) Auto Claving (12 sq.m.) (3) washing & Dying room with regular and continuous water supply(12sq.m.) for contaminated culture plates, test tubes and glassware shall be provided.*

10. Clause A.2(8)(G) under the heading “Primary Health Centre/Rural Health Training Centre” shall be substituted as under: -

*Rural Health Training Centre:*

*Every medical college shall have one Rural Health Training Centre affiliated to it. This Rural Health Training Centre shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Centre. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. This Health Centre shall be within a distance of 30 kms. except in Urban agglomeration Class A cities specified in Establishment of Medical College Regulations, 1999 as amended where it should be within 50 kms. Separate residential arrangements for boys, girls and interns with mess facilities shall also be provided. Hostel accommodation shall be provided for 10 % of annual intake. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.*

11. Clause A.2(8)(H) under the heading “Urban Training Health Centre” shall be substituted as under: -

*Every medical college shall have one Urban Health Training Centre affiliated to it. This Urban Health Training Centre shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Centre. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.*

12. In Clause A.2.8, under the heading “Community Medicine Department”, after point no. H, the following shall be added as under:-

*(I) There shall be a Laboratory (375 sq. m.) with facilities for purposes of demonstration of various laboratory practicals.*

13. In clause B. Teaching Hospital under the heading “B.1 General Remarks”, the first para of clause B.1.1. shall be substituted as under:

*A fully functional teaching hospital with 1,100 beds with standing of not less than 10 years and having all necessary infrastructure like OPD, Indoor wards, OT, ICU, Casualty, Labour Room, Laboratories, Blood Bank, CSSD, Kitchen etc. having minimum 75 % indoor bed occupancy and OPD strength per day not less than 3,000 and unitary hospital shall be available at time of submission of application to the Central Government.*

14. Clause B.1.7 shall be substituted with the following.

*There shall be a minimum OPD attendance per day not less than 3000 from LOP stage.*

15. Clause B.1.8 shall be substituted with the following.

**Indoor beds occupancy** - Average occupancy in indoor beds shall be minimum of 75% per annum.

16. In clause B.2 under the heading of “Clinical Departments”, and under the Sub-heading of B.2.2 regarding “additional accommodation” point no. 3. *Clinical Demonstration room (at least one for each department)* shall be deleted.

17. In clause B.2 under the heading of “Clinical Departments”, and under the Sub-heading of B.2.3 regarding “Operation Theatre Unit”, points no. 2 & 4 shall be substituted as under:-

*“2. Preoperative beds – 1 bed / O.T. Unit*

*4. Postoperative beds – 2 beds / O.T. Unit”*

18. In clause B.2.7 under the heading “Department of Anaesthesiology” point no. 3, shall be substituted as under: -

*3. Clinical Demonstration Room: One.*

19. In clause B.3 under the heading “Clinical Departments” and under the Sub-heading of B.3.1 regarding “Accommodation” point no. 3, shall be substituted as under: -

*3. Four examination rooms, suitably equipped, shall be provided for departments of General Medicine, Paediatrics, General Surgery, Orthopaedics and Obstetrics & Gynaecology and two examination rooms, suitably equipped, shall be provided for the rest of the departments. Each department shall also have 1 Demonstration room of capacity 15-20 students.*

20. In clause B.5 under the heading “Central Casualty Department”, the following shall be added as under: -

*Accommodation for Resuscitation Services including Oxygen supply, ventilators, defibrillator and two fully equipped disaster trolleys (emergency trolleys), Emergency X-ray, investigative facilities, Operation theatre etc., shall be provided. These shall all be fully equipped.*

*Adequate sanitary arrangements (toilet and bathrooms) & drinking water facilities for patients, their attendants and the staff of the department shall be provided in the respective blocks.*

21. In clause B.6 under the heading “Central Hospital Pharmacy”, the following shall be added as under: -

*1. Space Requirement -*

*Dispensary :*

*3000 Sq.ft. (It should include all areas of dispensing services available in wards and OPDs, patient counseling, Inventory, staff and all stores).*

*Drug and poison information services*

*They are being provided by the Pharmacology Department as a part of MBBS curriculum & should be continued as such.*

*2. Staff requirement*

*As per existing Regulations of Minimum Standard Requirements for the Medical College for 250 Admissions Annually Regulations, 1999 under point number B6 “Central Hospital Pharmacy” – the Incharge of central hospital pharmacy should be a qualified pharmacist. He should be preferably B. Pharma from a recognized university/ D.Pharma from a recognized body. He/she may be Head of the central hospital pharmacy and should work under the supervision of Medical Superintendent.*

*Other staff certified by statutory authorities should be available to dispense the drugs.*

*3. Infrastructural Requirements (Numbers may vary as required) -*

*Refrigerators : 03*

*Tables : 10*

*Chairs : 15*

*Dispensing tables (2x8 ft) : 05*

*Computers(depending on the need) : 05*

*Computer chairs : 05*

*File cabinets : 02*

*Text book racks : 02*

*Computer tables : 05*

*Telephone facilities*

*Printing facilities*

*Internet facilities (high speed)*

*The above numbers are minimum requirement. However the actual number may vary as per requirement of the hospital.*

*4. Resources required for Drug information Pharmacopoeias/National Formularies & important text books & journals should be available in Central library as per recommendation of Prof. & HOD, Pharmacology department.*

22. In clause B.9 under the heading “Staff Quarters” B.9.1 shall be substituted as under: -

*There shall be accommodation for 100 % of Senior Residents & Junior Residents. It shall be mandatory for all Senior & Junior Residents to stay in Residents’ Hostel / Quarters in the campus where hospital is located.*

23. Clause B.11 under the heading “Hostels for Students”, shall be substituted as under: -

*The college/institution shall have provision of student hostel for at least 60 % of total intake of students at a given time. Each hostel room shall not have more than three occupants. The size of room shall be 9 sq.m. / student. Each student shall be provided with an independent and separate furniture which shall include chair,*

table, bed and full size cupboard. Each hostel shall have a Visitors' room and a Study room with Computer & Internet. Both these rooms shall be air-conditioned. There shall be recreational room having T.V., Music, Indoor games and messing facilities.

24. After clause B.11, the following shall be added as under: -

**B.12.** The college/institution shall have provision for Interns' Hostel for at least 50 % of total intake of students at time of assessment for recognition. Each hostel room shall not have more than three occupants. The size of room shall be 9 sq.m./ intern. Each intern shall be provided with an independent and separate furniture which shall include chair, table, bed and full cupboard. Each hostel shall have a Visitors' room and a Study room with Computer & Internet. Both these rooms shall be air-conditioned. There shall be recreational room having T.V., Music, Indoor games and messing facilities.

25. In Schedule II under the heading "Staff Requirements" in clause A under the heading of "General Remarks", last four lines of point no. 5 shall be substituted as under: -

*In the department of Community Medicine, Statistician cum Tutor shall possess M.Sc. qualification from a recognized University. These requirements are as per the Teacher Eligibility Qualification Regulations.*

26. In Schedule II under the heading "Staff Requirements" in clause D under the heading of "Staff Requirement for Ancillary Services" in "Justification" point no. 1 & 2 shall be deleted.

Dr. REENA NAYYAR, Secretary I/c

[ADVT.-III/4/Exty./409/17]

**Foot Note:** The Principal Regulations namely, "Minimum Requirement for 250 MBBS Admissions Annually Regulation, 1999" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 29<sup>th</sup> April 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30<sup>th</sup> March, 1999 and further amended vide MCI notification dated 20 October 2008, 1<sup>st</sup> December 2008, 13<sup>th</sup> November 2009, 18<sup>th</sup> January 2010, 30<sup>th</sup> January 2010, 26<sup>th</sup> February 2010, 17<sup>th</sup> September 2010, 3<sup>rd</sup> November 2010, 18<sup>th</sup> March 2014, 01<sup>st</sup> July 2015, 27 January 2017 & 23 August 2017.

#### Requirements for 250 admissions

S.No.	Infrastructural facilities	LOP (1 <sup>st</sup> Batch)	Ist Renewal (2 <sup>nd</sup> Batch)	IIInd Renewal (3 <sup>rd</sup> Batch)	IIIrd Renewal (4 <sup>th</sup> Batch)	IVth Renewal (5 <sup>th</sup> Batch)	Recognition
1	Lecture Theatre (College building)	a) Number	4	4	4	4	4
		b) Capacity	300	300	300	300	300
		c) Type	Gallery	Gallery	Gallery	Gallery	Gallery
	Lecture Theatre (Hospital)	a) Number	1	1	1	1	1
		b) Capacity	300	300	300	300	300
		c) Type	Gallery	Gallery	Gallery	Gallery	Gallery
2	Examination Hall	Capacity	250	250	250	250	250
		Number	3	3	3	3	3
3	Central Library	a) Area (sq. m)	4000	4000	4000	4000	4000
		b) Seating Capacity [Inside + Outside]	500 (250+250)	500 (250+250)	500 (250+250)	500 (250+250)	500 (250+250)
		c) Books	20000	20000	20000	20000	20000
		d) Journals (Indian + Foreign)	100 (67+33)	100 (67+33)	100 (67+33)	100 (67+33)	100 (67+33)
4	Hostel	a) Boys/Girls Capacity @60%	60%	60%	60%	60%	60%
		b) Residents Capacity @ 100%	128 + Accommodation for Additional Postgraduate if any	128 + Accommodation for Additional Postgraduate if any	128 + Accommodation for Additional Postgraduate if any	128 + Accommodation for Additional Postgraduate if any	128 + Accommodation for Additional Postgraduate if any
	(Hostel/Qtr)	c) Interns Hostel accommodation @50%	50%	50%	50%	50%	50%
		d) Nurses accommodation	110	110	110	110	110

		@ 20%						
5	Residential Quarters	a) Teaching@20%	38	38	38	38	38	38
		b) Non – Teaching@20% 20% of total non-teaching staff	38	38	38	38	38	38
	<b>Bed Distribution</b>							
6	Medicine & Allied	a) Medicine	240/8	240/8	240/8	240/8	240/8	240/8
		b) Paediatrics	120/4	120/4	120/4	120/4	120/4	120/4
		c) TB & Chest	50/2	50/2	50/2	50/2	50/2	50/2
		d) Skin V.D.	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
		e) Psychiatry	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
		Total	470/16	470/16	470/16	470/16	470/16	470/16
7	Surgery & Allied	a) Gen. Surgery	240/8	240/8	240/8	240/8	240/8	240/8
		b) Orthopaedics	150/5	150/5	150/5	150/5	150/5	150/5
		c) Ophthalmology	60/2	60/2	60/2	60/2	60/2	60/2
		d) ENT	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
		Total	480/16	480/16	480/16	480/16	480/16	480/16
8	OBG	a) OBG & ANC	70	70	70	70	70	70
		b) Gynaecology	60	60	60	60	60	60
		c) Postpartum	20	20	20	20	20	20
		Total	150/5	150/5	150/5	150/5	150/5	150/5
		Grand Total	1100/37	1100/37	1100/37	1100/37	1100/37	1100/37
9	OPD		3000	3000	3000	3000	3000	3000
10	Beds Occupancy: (In a unitary Hospital of not less than 10 years standing)		75%	75%	75%	75%	75%	75%
11	OT & ICU	a) Major OT	11	11	11	11	11	11
		b) Minor OT	2	2	2	2	2	2
		c) ICCU	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds
		ICU	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds
		PICU/NICU	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds
		SICU	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds	5 beds
		d) Casualty Beds	30	30	30	30	30	30
12	Radiology	a) Static unit - 300 mA - 600 mA - 800 mA with Fluoroscopy	2 2 2 IITV + Fluoroscopy	2 2 2 IITV + Fluoroscopy	2 2 2 IITV + Fluoroscopy	2 2 2 IITV + Fluoroscopy	2 2 2 IITV + Fluoroscopy	2 2 2 IITV + Fluoroscopy
		b) Mobile unit 60 mA - 100 mA	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3
		c) USG (Color)	3	3	3	3	3	3
		d) CT Scan (16 slice-spiral)	1	1	1	1	1	1
		f) MRI (1.5 tesla)	1	1	1	1	1	1
13	Paramedical & Non Teaching staff		188	188	188	188	188	188
14	Nursing Staff	a) Nursing Supdt.	1	1	1	1	1	1
		b) Dy. Nursing Sudt.	8	8	8	8	8	8
		c) Asstt. Dy. Nursing Supdt.	18	18	18	18	18	18
		d) Nursing sister	75	75	75	75	75	75
		e) Staff Nurse	450	450	450	450	450	450

	Total	552	552	552	552	552	552
15	Practical Laboratories	6 (300 sq.m) 2 (120 sq.m)	6 (300 sq.m) 2 (120 sq.m)	6 (300 sq.m) 2 (120 sq.m)	6 (300 sq.m) 2 (120 sq.m)	6 (300 sq.m) 2 (120 sq.m)	6 (300 sq.m) 2 (120 sq.m)
	Central Laboratory - Hospital	1 Available and functional	1 Available and functional	1 Available and functional	1 Available and functional	1 Available and functional	1 Available and functional
	Licensed Blood bank	Shall be available and functional right from inception stage.	Shall be available and functional right from inception stage.	Shall be available and functional right from inception stage.	Shall be available and functional right from inception stage.	Shall be available and functional right from inception stage.	Shall be available and functional right from inception stage.
16	Rural Health Training Centre	Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it. This Rural Health Training Center shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Center. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. This Health Center shall be within a distance of 30 kms. except in Urban agglomeration Class A cities specified in Establishment of Medical College Regulations, 1999 as amended where it should be within 50 kms. Separate residential arrangements for boys, girls and interns with mess facilities shall also be provided. Hostel accommodation shall be provided for 10 % of annual intake. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.					
17	Urban Health Training Centre	Every medical college shall have one Urban Health Training Centre affiliated to it. This Urban Health Training Centre shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Centre. Academic control shall be with the Dean of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.					
18	Central research lab	A central research lab/cell shall be available since first batch with all infrastructure and staff.					

#### Staff Strength for 250 Admission

Department	Designation	LOP (1 <sup>st</sup> Batch)	1 <sup>st</sup> Renewal (2 <sup>nd</sup> Batch)	II <sup>nd</sup> Renewal (3 <sup>rd</sup> Batch)	III <sup>rd</sup> Renewal (4 <sup>th</sup> Batch)	IV <sup>th</sup> Renewal (5 <sup>th</sup> Batch)	Recognition
Anatomy	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asstt.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor	5	5	5	5	5	5
Physiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asstt.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor	5	5	5	5	5	5
Biochemistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asstt.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor	5	5	5	5	5	5
Pharmacology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asstt.Prof.	3	3	3	3	3	3
	Tutor	4	4	4	4	4	4
Pathology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Asstt.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor	6	6	6	6	6	6
Microbiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asstt.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor	5	5	5	5	5	5
Forensic Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor	4	4	4	4	4	4
Community Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asstt.Prof.	5	5	5	5	5	5
	Epidemio-Logist-Cum-Asstt.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Statistician -cum -tutor	1	1	1	1	1	1



	Tutor	5	5	5	5	5	5
General Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	7	7	7	7	7	7
	Asstt.Prof.	8	8	8	8	8	8
	Sr. Resident	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	Jr. Resident	16	16	16	16	16	16
Paediatrics	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asstt.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Sr. Resident	4	4	4	4	4	4
	Jr. Resident	8	8	8	8	8	8
Tuberculosis & Respiratory Diseases	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Resident	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Jr. Resident	4	4	4	4	4	4
Dermatology, Venereology & Leprosy	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Jr. Resident	2	2	2	2	2	2
Psychiatry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Jr. Resident	2	2	2	2	2	2
General Surgery	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	7	7	7	7	7	7
	Asstt.Prof.	8	8	8	8	8	8
	Sr. Resident	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	Jr. Resident	16	16	16	16	16	16
Orthopaedics	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Asstt.Prof.	5	5	5	5	5	5
	Sr. Resident	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Jr. Resident	10	10	10	10	10	10
Oto-Rhino-Laryngology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	Jr. Resident	2	2	2	2	2	2
Ophthalmology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Resident	2	2	2	2	2	2
	Jr. Resident	4	4	4	4	4	4
Obstetrics & Gynaecology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Asstt.Prof.	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Sr. Resident	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
	Jr. Resident	10	10	10	10	10	10
Anaesthesiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Asstt.Prof.	6	6	6	6	6	6
	Sr. Resident	4	4	4	4	4	4
	Jr. Resident	7	7	7	7	7	7
Radio-Diagnosis	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asstt.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Resident	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Dentistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asstt.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Jr. Resident	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

<b>Notes:</b>
<b>For purpose of working out the deficiency:</b>
(1) The deficiency of teaching faculty and Resident Doctors shall be counted separately.
<b>(A) For Teaching Faculty:</b>
(a) For calculating the deficiency of faculty, Prof., Assoc Prof., Asst. Prof& Tutor in respective departments shall be counted together. (b) Any excess teaching faculty in higher cadre can compensate the deficiency of lower cadre of the same department only. (c) Any excess teaching faculty of lower cadre/ category in any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in the higher cadre/category of the same department or any other department. e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Associate Professor or Professor. (d) Excess/Extra teaching faculty of any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in any other department.
<b>(B) For Resident Doctors:</b>
(a) Excess of SR can be compensated to the deficiency of JR of the same department only. (b) Excess SR/JR of any department cannot compensate the deficiency of SR/JR in any other department. (c) Any excess of JR cannot compensate the deficiency of SR in same or any other department. (d) Any excess/ extra teaching faculty of same or any other department cannot compensate the deficiency of SR/JR. e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of SR or JR.
(2) A separate department of Dentistry/Dental faculty is not required where a dental college is available in same campus/city and run by the same management.
(3) Colleges running PG program require additional staff, beds & other requirements as per the PG Regulations – 2000.

Designation	Recognition
Faculty Total	192
Resident Total	128